



कार्यालय उप वन संरक्षक,  
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पत्राक- 437/12-1 दिनांक, पुरोला 14/08/2019।

फोन/फैक्स नं०- 01373-223328  
E-Mail:- dfo\_tons@yahoo.co.in  
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

सेवामें,

✓ 1. वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

2. निदेशक/वन संरक्षक  
राजाजी टाईगर रिजर्व  
देहरादून

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे०वा० क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय सुभाष रोड देहरादून के पत्राक- 8 बी. यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी/868 दिनांक 24.07.2019 एवं अपर महाप्रबन्धन (परियोजना प्रमुख) जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, मोरी का पत्राक-19-30-31 दिनांक 31.07.2019।


महोदय,


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण जो निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र० सं०	ई०डी०एस०क्वैरी	प्रतिउत्तर	टिप्पणी
1.	In reply to point No. 04, still four KML files for area proposed for diversion found uploaded. State Government may upload single KML file of whole area proposed for diversion.	Reply of user agency is enclosed.	
2.	In reply to point No. 06 density now mentioned as 0.1 in Govind Pashu Vihar Division, which still seems incorrect. State Government may do the needful in this regard.	in 22.067 ha land proposed for diversion total number of trees is 1530 which comes approximate 69 trees per hact. Hence on this ground density of forest is 0.1.	
3.	In reply to point No. 08, density is now mentioned as 0 in Tons Division, which still seems incorrect. State Government may do the needful in this regard.	Since no tree is found on forest land which is proposed for diversion so density is mentioned as 0.	
4.	In reply to point No. 09, DFOs of both divisions have not made any comments against point No. 5.5 in Site Inspection Report. State Government may upload and submit the SIR of both divisions after providing comments against all paras.	Site inspection report with comments of both divisions are enclosed.	

5	In reply to point No.10 & 11, it is submitted that initially the proposal was for 33 MW. now requested for 44 MW and approval from the State Government of Uttarakhand is under process. State Government may submit proposal after granting approval for 44 MW.	Reply of user agency is enclosed.	
6.	In reply to point No.12, it is mentioned that all important document have been submitted and rest will be submitted. If required. State Government may submit all document in original.	Reply of user agency is enclosed.	
7.	प्रस्ताव में यह पाया गया है कि Dumping Yard एवं Contractor Facility भी वन क्षेत्र में प्रस्तावित किये गए हैं। अतः राज्य सरकार इस कार्य हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण पृथक से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	Reply of user agency is enclosed. Photo copy of list of trees is enclosed.	

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
 (आर०पी० मिश्रा)  
 उप वन संरक्षक  
 गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पा०  
 पुरोला, उत्तराखण्ड पार्क, पुरोला

भवदीय  
  
 (आर०पी० मिश्रा)  
 उप वन संरक्षक,  
 टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।  
 उप वन संरक्षक  
 टौन्स वन प्रभाग,  
 पुरोला



**SITE INSPECTION REPROT NOT BELOW THE RANK OF DCF  
(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been reviewed by this office from SJVN Ltd. For diversion under FCA-1980 of **2.25 hac.** of forest land non-forestry. The Project envisages use of forest land for construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project the site inspection of the land involved in the proposal has done by me dated **21.06.2018**

On inspection of the site, it is found that land required by the user agency is a RF/PF un-classed/Protect forest measuring **2.25 hac.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project: **Yes.**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: **No.**

Whether any protected archaeological/ heritage site/ defence establishment of any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required: **No.**


a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, para Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **No**

Specific recommendation for acceptances or otherwise of the proposal.  
Recommended for sanction.

Place: Purola

Date: 7/8/2019

  
(Signature)  
Name: R.P. Mishra  
Designation:  
Office: उप वन संरक्षक  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुरोला

NB: X state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter No----- from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCG is required and for proposal involving more than 40 hac. Of forest land site inspection report the conservation of forest is required.





## एसजेवीएन लिमिटेड

जखोल-सांकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट  
मोरी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)- 249128  
☎: 01373-234401.

Website: www.sjvn.nic.in  
CIN: L40101HP1988GOI0084

पत्रांक-एसजेवीएन/जसांजविपरि/वन भूमि/19-30-31

दिनांक: 31.07.2019

सेवामें,

1. उप-वन संरक्षक,  
टोन्स वन प्रभाग,  
पुरोला, उत्तरकाशी।
2. उपनिदेशक,  
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क,  
पुरोला, उत्तरकाशी।

**विषय:-** जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे0वा0 क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक- 8 बी. यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी/868 दिनांक 24.07.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार विवरण/सूचनाएँ प्रेषित है जो निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	ई0डी0एस0क्वैरी	प्रतिउत्तर	टिप्पणी
1.	In reply to point No. 04, still four KML files for area proposed for diversion found uploaded. State Government may upload single KML file of whole area proposed for diversion.	Proposal for diversion of forest land for construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project is of hybrid nature. Area are in patches & segments and involves two Divisions. Accordingly, for a division, a minimum of 2 KML files (one each for patch and segment) is required to be uploaded. Therefore Four KML files have been uploaded.	
2.	In reply to point No. 06 density now mentioned as 0.1 in Govind Pashu Vihar Division, which still seems incorrect. State Government may do the needful in this regard.	Pertains to Dy. Director Govind Wild Life Sanctuary/ National Park, Purola.	
3.	In reply to point No. 08, density is now mentioned as 0 in Tons Division, which still seems incorrect. State Government may do the needful in this regard.	Pertains to Dy. Conservator Forest, Tons Forest Division, Purola.	
4.	In reply to point No. 09, DFOs of both divisions have not made any comments against point No. 5.5 in Site Inspection Report.	Pertains to Dy. Director Govind Wild Life Sanctuary/ National Park, Purola. And Dy. Conservator Forest, Tons Forest Division, Purola.	



	State Government may upload and submit the SIR of both divisions after providing comments against all paras.		
5	In reply to point No.10 & 11, it is submitted that initially the proposal was for 33 MW. now requested for 44 MW and approval from the State Government of Uttarakhand is under process. State Government may submit proposal after granting approval for 44 MW.	Proposal /TEC have been approved by Government of Uttarakhand for 44 MW and the same has already been submit in the office of Nodal Officer Dehradun on dated 17.06.2019 through CF and Directory Raja ji Tiger Reserve, Dehradun.	Receipt of the same is enclosed. However copy of the TEC is again enclosed.
6.	In reply to point No.12, it is mentioned that all important document have been submitted and rest will be submitted. If required. State Government may submit all document in original.	Most of the documents as required in part - I to V like CA plan, NOC under FRA-2006, certificate of suitability for CA, estimate of NPV amount & bill , dumping plan etc. in original along with proposal are enclosed for kind consideration please.	
7.	प्रस्ताव में यह पाया गया है कि Dumping Yard एवं Contractor Facility भी वन क्षेत्र में प्रस्तावित किये गए हैं। अतः राज्य सरकार इस कार्य हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण पृथक से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	Dumping Yard and contractor facility please are planned partially in Civil Soyam land and partially in private land due to non-availability of other private land in nearby area and also proposed due to its requirement near the project component. However, after completion of the construction of the project, the land used for dumping yard and contractor facility area shall be handed over back to forest department .	

इस परियोजना का निर्माण एसजेवीएन लिमिटेड (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) के द्वारा जनहित में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने हेतु करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय

(जि०के० महाजन)

अपर महा प्रबंधक (परियोजना प्रमुख)  
 अपर महा प्रबंधक (परियोजना प्रमुख)  
 J.S. HEP., MORI, UTTARKASHI, U.K.  
 जखोल सांकरी, ज.वि.प., मोरी,  
 उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड-249128